

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक:-15.06.2021

थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय तीन वाहन चोरों को 5 अदद मोटरसाइकिल व एक अदद देसी तमन्चा के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री आलोक कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री मनोज कुमार त्रिपाठी व स्वाट प्रभारी उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव तथा चौकी प्रभारी बड़ेबन उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद मय पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2021 धारा 379 IPC से सम्बन्धित वांछित तीन अभियुक्तों को दिनांक 14.06.2021 को ब्लाक रोड पर बैरियहवां मोड़ के पास से एक अदद देसी कट्टा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व पाँच अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त विनय वर्मा पुत्र भागरथी वर्मा निवासी ग्राम आमा शुक्ल पोस्ट जीनवा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 185/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर तीन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय बस्ती खाना किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा पूरी टीम को रुपये 5,000/- से पुरस्कृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. विनय वर्मा पुत्र भागरथी वर्मा निवासी ग्राम आमा शुक्ल पोस्ट जीनवा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती हा0मु0 मड़वानगर निकट अम्बेडकर पार्क थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
2. अरविन्द कुमार मिश्रा उर्फ रोशन पुत्र सूर्यनाथ मिश्रा निवासी हवेली खास थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
3. बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. मोटर साइकिल पैसन प्रो रंग काला UP 51 V 6070।
3. मोटर साइकिल पल्सर रंग काला UP 53 AR 7150।
4. मोटर साइकिल पैसन प्रो रंग काला UP 55 K 4603।
5. मोटर साइकिल स्पलेन्डर रंग काला UP 51 AA 1050।
6. मोटर साइकिल पल्सर रंग ग्रे MH 12 FW 3866।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.06.2021 को अजय श्रीवास्तव पुत्र वंश बहादुर श्रीवास्तव निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 11.06.2021 को मेरी मोटर साइकिल गाड़ी संख्या UP 51 V 6070 पैसन प्रो मेरे घर के बाहर खड़ी थी जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मु0अ0सं0 182/2021 धारा 379 IPC पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व प्रभारी स्वाट टीम मय पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ब्लाक रोड पर बैरियहवां मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो की तलाश में गाढ़ा बन्दी किया गया था कि कुछ समय पश्चात एक मोटर साइकिल जिस पर तीन सवार बैठे हुए थे आते हुए नजर आये जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो तीनों गाड़ी सवार गाड़ी छोड़कर ब्लाक की तरफ भागने का प्रयास किये जिन्हे कुछ दूरी पर आगे पकड़ लिया गया। अभियुक्त विनय वर्मा के पास से एक अदद अवैध देशी कट्टा 315 बोर व एक अदद

जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर एक अदद मोटर साइकिल मोटर साइकिल पैसन प्रो रंग काला UP 51 V 6070 व अभियुक्तगण के निशानदेही पर अभियुक्त विनय वर्मा के घर मड़वानगर से अन्य चार अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 11.06.2021 को हम लोगो ने मिलकर आवास विकास कालोनी से मोटर साइकिल पैसन प्रो रंग काला UP 51 V 6070 की चोरी की थी जिसे आज बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया ।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मोटर साइकिल पल्सर रंग काला UP 53 AR 7150 को खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर, मोटर साइकिल पैसन प्रो रंग काला UP 55 K 4603 को बस्ती शहर से चुराया था । मोटर साइकिल स्पलेन्डर रंग काला UP 51 AA 1050 को कम्पनी बाग से हम तीनों लोगो द्वारा चुराया गया तथा चौथा वाहन मोटर साइकिल पल्सर रंग ग्रे MH 12 FW 3866 को बस्ती शहर से चोरी किये थे ।

अभियुक्त विनय वर्मा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 670/2018 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 502/2020 धारा 41/411/419/420/467/468/471 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
3. मु0अ0सं0 600/2019 धारा 60 Ex. Act थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
4. मु0अ0सं0 185/2021 धारा 3/25 Arms Act थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 3732/2017 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
2. मु0अ0सं0 90/2020 धारा 379/411 IPC थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर ।
3. मु0अ0सं0 182/2021 धारा 379/411/413 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री मनोज कुमार त्रिपाठी जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी स्वाट उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव जनपद बस्ती ।
3. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
6. हे0का0 मनोज कुमार राय, हे0का0 महेन्द्र यादव, का0 रविशंकर शाह, का0 रमेश गुप्ता स्वाट टीम जनपद बस्ती ।
7. हे0का0 देवेन्द्र यादव, का0 हरिप्रकाश, का0 चन्द्रप्रकाश, का0 शैलेन्द्र यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।